



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श०)
(सं० पटना 366) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं० 08/आरोप-01-93/2014,सां०प्र०-1850

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 फरवरी 2015

श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर (जहानाबाद) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, कटिहार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं सरकारी राशि के गबन संबंधी नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4046, दिनांक 17.08.2007 द्वारा प्राप्त आरोपों (प्रपत्र 'क') की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5881, दिनांक 19.05.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार पर प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। इस आलोक में श्री कुमार को विभागीय पत्रांक-8793, दिनांक 20.06.2012 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। निर्धारित अवधि में प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक-7038, दिनांक 28.05.2014 द्वारा स्मारित किया गया इसके बावजूद भी निर्धारित अवधि में वांछित प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा। तदुपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विनिश्चित वृहद दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी।

3. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1151/2008, 916/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर (जहानाबाद) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) निन्दन,

(ख) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 366-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>